



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 295 राँची, मंगलवार, 2 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

19 मार्च, 2019

आदेश संख्या-5/आरोप-1-166/2017 का.- 2427-- श्री पुष्पक रजक, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टो, प० सिंहभूम, चाईबासा को अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति रहने, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-12013, दिनांक 08.12.2017 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची निर्धारित किया गया है।

2. उक्त आदेश के अनुपालन में श्री रजक द्वारा दिनांक 18.12.2017 के पूर्वाहन में विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक विभागीय आदेश सं०-1439, दिनांक 22.02.2018 द्वारा श्री रजक का योगदान स्वीकृत किया गया।

3. श्री रजक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2825, दिनांक 26.04.2018 द्वारा श्री रजक को आरोप मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया।

4. उपायुक्त गोड्डा के पत्रांक-503/स्था० दिनांक-29.09.2018 द्वारा श्री पुष्पक रजक, झा०प्र०से० अंचलाधिकारी, ठाकुरगंगटी के निलम्बन अवधि के सेवा को विनियमित करने संबंधी आवदेन उपलब्ध कराया गया है।

5. अतः मामले के समीक्षोपरांत श्री रजक के निलंबन अवधि दिनांक-08.12.2017 से दिनांक-26.04.2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के अन्तर्गत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
